

भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणालियों के कार्यान्वयन संबंधी समय-सीमा पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अंतिम दृष्टिकोण

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने "भारत में डिजिटल संबोधनीय केबल प्रणालियों का कार्यान्वयन" संबंधी अपनी दिनांक 5.8.2010 की सिफारिशों में अन्य बातों के साथ केबल टीवी के क्षेत्र में संबोधनीयता के साथ प्राथमिकता आधार पर डिजिटलाइजेशन के कार्यान्वयन की सिफारिश की और तदनुसार एनॉलाग केबल टीवी सेवाओं के लिए समाप्ति की तारीख 31 दिसम्बर, 2013 निर्धारित करते हुए इसको डिजिटल संबोधनीय केबल टीवी प्रणाली में परिवर्तित करने के लिए चार फेजों वाली समय-सीमा का सुझाव दिया।

2. सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने इस संबंध में ट्राई द्वारा की गई सभी सिफारिशों तथा साथ ही पूर्ण डिजिटलाइजेशन के कार्यान्वयन संबंधी अस्थिर दृष्टिकोण से भी सहमत होते हुए अपने दिनांक 28.01.2011 के पत्र के माध्यम से 31 मार्च, 2015 को समाप्ति की तारीख निर्धारित करते हुए एक संशोधित समय-सीमा का प्रस्ताव किया। इसके प्रत्युत्तर में ट्राई ने अपने दिनांक 22.02.2011 के पत्र के माध्यम से डिजिटल प्रणाली में परिवर्तन के लिए अंतिम तारीख के संबंध में अपने पूर्ववर्ती मत को बिना बदले समय सीमा में थोड़े परिवर्तन की सिफारिश की है।

3. इसके अनुसरण में संबंधित औद्योगिक संगठनों के विचारों का अध्ययन करने के पश्चात देश में केबल टीवी प्रणालियों में संबोधनीयता सहित डिजिटलाइजेशन के संबंध में मंत्रालय ने नीचे दिए गए अनुसार समय-सीमा तैयार की है जो कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के अधीन है।

फेज	ट्राई द्वारा सुझाया गया क्षेत्र	ट्राई द्वारा 5.8.2010 को प्रारंभिक रूप से सिफारिश की गई समय सीमा	मंत्रालय द्वारा 28.1.2011 को प्रस्तावित की गई समय-सीमा	ट्राई द्वारा 22.2.2011 को सिफारिश की गई संशोधित समय-सीमा	डिजिटलाइजेशन संबंधी समय-सीमा पर मंत्रालय का अंतिम दृष्टिकोण
फेज-I	चार मेट्रो शहर- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई	31 मार्च, 2012	31 मार्च, 2012	31 दिसम्बर, 2011	31 मार्च, 2012
फेज II	एक मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर	31 दिसम्बर, 2011	31 मार्च, 2013	31 दिसम्बर, 2012	31 मार्च, 2013
फेज III	सभी नगरीय क्षेत्र (नगर निगम/नगर पालिकाएं)	31 दिसम्बर, 2012	30 नवम्बर, 2014	31 दिसम्बर, 2013	30 सितम्बर, 2014
फेज IV	शेष भारत	31 दिसम्बर, 2013	31 मार्च, 2015	31 दिसम्बर, 2013	31 दिसम्बर, 2014